



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 315] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 5, 1986/श्रावण 14, 1908  
No. 315] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 1986/SRAVANA 14, 1908

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन में रखा जा सके

Separate Pageing is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

---

संश्लिष्ट सचिवालय

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1986

का. प्रा. 460(प्र) :— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक ही डिपार्टीमेंट संघी-घन) नियम, 1986 है।  
(2) ये तुरंत प्रभावी होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,

(I) "कृषि मंत्रालय" शीर्ष के नीचे, "क. कृषि और सहकारिता विभाग" उपशीर्ष के नीचे, भाग 2, में, प्रविष्टि 23 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"23क. खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 (1983 का 36) का प्रशासन।";

(II) "कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय" शीर्ष के नीचे "क. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग" उप शीर्ष के नीचे, भाग XII राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप कार्मिकों का आवंटन और सेवाओं का एकिकरण के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"XIII. लोक उद्यम चयन बोर्ड"

46. लोक उद्यम चयन बोर्ड (लो. उ. व. बो.)।"

जीत सिंह

राष्ट्रपति

[सं. 74/2/1/86-भंवि.]

दीपक पास गुप्ता, संयुक्त सचिव

## CABINET SECRETARIAT

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 1986

S.O. 460 (E) :—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and eighty-sixth Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961; in the Second Schedule,—

(i) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (KRISHI AUR SAHKARITA VIBHAG)",

in Part II, after entry 23, the following shall be inserted, namely :—

“23A. Administration of the Dangerous Machines (Regulation) Act, 1983 (35 of 1983).”;

- (ii) under the heading “MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (KARMIC, LOK SHIKAYAT TATHA PENSION MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING (KARMIK AUR PRA-SHIKSHAN VIBHAG)”, after PART XII. ALLOCATION OF PERSONNEL AND INTEGRATION OF SERVICES AS A RESULT OF STATES RE-ORGANISATION, THE following shall be inserted, namely :—

“XIII. PUBLIC ENTERPRISES SELECTION BOARD  
46. Public Enterprises Selection Board (PESB).”.

ZAIL SINGH,  
PRESIDENT

[No. 74|2|1|86-Cab. Vol. II]  
DEEPAK DAS GUPTA, Jt. Secy.

